



अप्रवासी न्यू यॉर्कर के लिए संसाधन

आपकी आप्रवासन स्थिति पर ध्यान दिए बिना, न्यू यॉर्क शहर मदद के लिए यहाँ है।



आप्रवास कानूनी मदद

मुफ्त और सुरक्षित आप्रवासन कानूनी सहायता के लिए सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 800-354-0365 पर कॉल करें।



NYC ID कार्ड

IDNYC के लिए आवेदन करें, 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी NYC निवासियों के लिए निःशुल्क म्युनिसिपल पहचान पत्र। ऑनलाइन नवीनीकरण करें या अपॉइंटमेंट लेनामांकन के लिए 311 पर कॉल करें या nyc.gov/idnyc पर जाएं।



अंग्रेजी वर्ग

निःशुल्क अंग्रेजी वर्ग कभी भी, कहीं भी लें। अधिक जानकारी के लिए wespeaknyc.cityofnewyork.us पर जाएं।

स्वास्थ्य देखभाल



NYC Health + Hospitals (H+H) आपातकालीन देखभाल, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, चेक-अप, टीकाकरण, और बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। अपने निकटतम केंद्र का दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए 718-387-6407 पर कॉल करें। NYC Care कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में नामांकन के लिए, 646-NYC-CARE (646-692-2273) पर कॉल करें या nycare.nyc पर जाएं।



मानसिक स्वास्थ्य

गोपनीय समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और पदार्थ उपयोग संसाधनों के कनेक्शन के लिए, 888-692-9355 या 988 पर कॉल करें, 65173 पर WELL टेक्स्ट करें या mentalhealthforall.nyc.gov पर जाएं।

आपातकालीन स्थिति



आपातकालीन स्थिति में, 911 पर कॉल करें। आपातकालीन ऐसी कोई भी स्थिति है जिसमें पुलिस, अग्निशमन विभाग, या एम्बुलेंस से तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। कानून के अनुसार, न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग अपराध पीड़ितों, गवाहों, या मदद मांगने वाले अन्य लोगों की आप्रवासन स्थिति के बारे में नहीं पूछ सकता है।

सार्वजनिक शिक्षा



4-21 वर्ष के सभी NYC के बच्चे सार्वजनिक स्कूल में जा सकते हैं। नामांकन करने के लिए, schools.nyc.gov/fwc पर जाएं या 311 पर कॉल करें।

सामान्य शहर संसाधन और सूचना



शहर के संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है या किसी समस्या की रिपोर्ट करना चाहते हैं? 311 पर कॉल करें या portal.311.nyc.gov पर जाएं।



NYC आप्रवासी मामलों की हॉटलाइन

हमारी हॉटलाइन 212-788-7654 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करें या हमें askmoia@cityhall.nyc.gov पर ईमेल करें।



Mayor's Office of
Immigrant Affairs

मेयर का अप्रवासी
मामलों संबंधी कार्यालय

अप्रवासी न्यू यॉर्कर के लिए संसाधन

आपकी आप्रवासन स्थिति पर ध्यान दिए बिना, आपके पास अधिकार हैं।

आप्रवासन धोखाधड़ी से बचें

यदि आपको अप्रवासी कानूनी सलाह की आवश्यकता है, तो केवल कोई लाइसेंस प्राप्त वकील या एक मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के पास जाएँ। आप अधिकृत और मान्यता प्राप्त प्रदाताओं की सूची nyc.gov/immigrants पर प्राप्त कर सकते हैं।

आप्रवासन प्रवर्तन में अधिकार

NYC आप्रवासन प्रवर्तन नहीं करता है। यदि संघीय आप्रवासन प्रवर्तन आपसे संपर्क करता है, तो आपके पास अधिकार हैं। nyc.gov/knowyourrights पर जाएँ या **800-354-0365** पर हमारी निःशुल्क आप्रवासन कानूनी हॉटलाइन पर कॉल करें।

श्रमिकों के अधिकार

न्यूयॉर्क शहर के कानून के तहत आपके पास सवैतनिक अस्वस्थता अवकाश, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम वेतन और अन्य अधिकार हैं। संसाधनों के लिए nyc.gov/workers पर जाएँ या **212-436-0381** पर कॉल करें।

भेदभाव की रिपोर्ट करें

NYC मानवाधिकार कानून के तहत उत्पीड़न और भेदभाव अवैध है। भेदभाव की किसी घटना की रिपोर्ट करने के लिए, कृपया **212-416-0197** पर कॉल करें।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण

यदि आप दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं तो NYC आपकी सहायता के लिए यहाँ है। आप nyc.gov/nychope पर जा सकते हैं या **800-621-HOPE** पर NYC की घरेलू हिंसा हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं।

किरायेदार के अधिकार

बेदखली या अपने मकान मालिक से संबंधित किसी भी मुद्दे पर मदद चाहिए? nyc.gov/tenantprotection पर जाएँ या मुफ्त कानूनी सहायता के लिए **311** पर कॉल करें और "tenant helpline" (टेनन्ट हेल्पलाइन) कहें।

आश्रय का अधिकार

यदि आप बेघर होने का अनुभव कर रहे हैं तो आपको आश्रय का अनुरोध करने का अधिकार है। नामित DHS प्रवेश केंद्र पर जाकर आश्रय सेवाओं का लाभ लें। अधिक जानकारी के लिए **311** पर कॉल करें।

उपभोक्ता संरक्षण

व्यवसाय में कोई समस्या है? एक उपभोक्ता के रूप में, आपके पास अधिकार हैं। nyc.gov/consumers पर जाकर शिकायत दर्ज करें या **311** पर कॉल करें।